



फैक्ट्री प्रोडक्शन स्टैंडर्ड 2.0.0 ट्रांज़िशन नीति

फेयर ट्रेड USA

संस्करण 1.0.0

उद्देश्य

फेयर ट्रेड USA ने अपना फैक्ट्री प्रोडक्शन स्टैंडर्ड अपडेट किया है, जो अपैरल, होम गुड्स और अन्य कई तरह के फेयर ट्रेड प्रमाणित उत्पाद बनाने वाली सभी फैक्ट्रीज़ पर लागू होता है। इस दस्तावेज़ का उद्देश्य अपैरल और होम गुड्स के लिए फेयर ट्रेड USA फैक्ट्री स्टैंडर्ड 1.4.0 से नए फैक्ट्री प्रोडक्शन स्टैंडर्ड के संस्करण 2.0.0 पर होने वाले ट्रांज़िशन की नीति की रूपरेखा बताना है।

दायरा और प्रयोज्यता

यह नीति अपैरल और होम गुड्स के लिए फेयर ट्रेड USA फैक्ट्री स्टैंडर्ड 1.4.0 (AHG 1.4.0) के तहत प्रमाणित सभी मौजूदा सर्टिफिकेट होल्डर और फैक्ट्री प्रोडक्शन स्टैंडर्ड (FPS) 2.0.0 के तहत प्रमाणित किए जाने वाले सभी आवेदनकर्ताओं पर लागू होती है।

1 जनवरी, 2023 को FPS 2.0.0 प्रभाव में आ जाएगा। इस तारीख के बाद, स्टैंडर्ड (AHG 1.4.0) का पिछला संस्करण मान्य नहीं रहेगा।

1 अप्रैल, 2022 से 31 दिसंबर, 2022 के बीच किए जाने वाले मौजूदा सर्टिफिकेट होल्डर के ऑडिट, AHG 1.4.0 की कसौटी पर किए जाएंगे। 1 अप्रैल, 2022 से 31 दिसंबर, 2022 के बीच फैक्ट्री प्रोग्राम के लिए अर्ज़ी देने वाले आवेदनकर्ताओं के ऑडिट FPS 2.0.0 की कसौटी पर किए जाएंगे।

1 जनवरी, 2023 के बाद किए जाने वाले सभी ऑडिट FPS 2.0.0 की कसौटी पर किए जाएंगे।

इस नीति को लागू करने संबंध में स्पष्टीकरण के लिए, कृपया फेयर ट्रेड USA की सर्टिफिकेशन टीम से certification@fairtradeusa.org पर संपर्क करें।

संबंधित दस्तावेज़

- फैक्ट्री प्रोडक्शन स्टैंडर्ड 2.0.0
- फैक्ट्री प्रोडक्शन स्टैंडर्ड के तहत सर्टिफिकेशन के दायरे से जुड़ी आवश्यकताएँ



- फैक्ट्री प्रोडक्शन स्टैंडर्ड 2.0.0 में हुए बदलावों का सारांश
- फैक्ट्री आश्वासन मैनुअल

1. मौजूदा सर्टिफिकेट होल्डर

- 1.1. प्रभाव में आने की तारीख, यानी **1 जनवरी, 2023** से सभी ऑडिट फैक्ट्री प्रोडक्शन स्टैंडर्ड 2.0.0 की शर्तों की कसौटी पर किए जाएंगे।
- 1.2. FPS के प्रकाशित होने के बाद, ऑडिट की अवधि से जुड़ी सामान्य शर्तें सभी ऑडिट के लिए लागू होंगी। उदाहरण के लिए, किसी भी सर्टिफिकेट होल्डर को अपने वर्ष 3 के ऑडिट पर लागू होने वाले FPS में वर्ष 3 के लिए बताई गई शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- 1.3. AHG 1.4.0 के तहत प्रमाणित मौजूदा सर्टिफिकेट होल्डर को "नई" शर्तों को दर्शाने वाले सभी मानदंडों के लिए स्टैंडर्ड के प्रकाशित होने के समय, यानी 22 अगस्त, 2022 से लेकर 22 अगस्त, 2023 तक की ट्रांज़िशन अवधि दी जाएगी¹।
- 1.3.1. 1 जनवरी, 2023 के बाद होने वाले ऑडिट के लिए, "नई" शर्तों के आधार पर अपालन (NC) के किसी भी मामले के लिए सहूलियत और ढील दी जाती है। NC के इन सभी मामलों के लिए, अगर सी.ए.पी. की नियत तारीख 22 अगस्त, 2023 से पहले आती है, तो एक करेक्टिव एक्शन प्लान (सी.ए.पी.) की ज़रूरत होगी, जिसमें बताया जाएगा कि 22 अगस्त, 2023 तक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाने की योजना है। NC के जिन मामलों को "नए" के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, वहाँ सी.ए.पी. को सामान्य प्रक्रिया के तहत लागू किया जाएगा।
- 1.3.2. 22 अगस्त, 2023 के बाद किए जाने वाले ऑडिट के लिए अब कोई भी शर्त "नई" नहीं मानी जाएगी और सी.ए.पी. की सामान्य प्रक्रिया ही लागू होगी।

2. नए सर्टिफिकेट होल्डर

- 2.1. प्रभाव में आने की तारीख, यानी **1 जनवरी, 2023** से सभी ऑडिट फैक्ट्री प्रोडक्शन स्टैंडर्ड 2.0.0 की शर्तों की कसौटी पर किए जाएंगे।
- 2.2. **1 जनवरी, 2023** के बाद किए जाने वाले ऑडिट के लिए अब कोई भी शर्त "नई" नहीं मानी जाएगी और सी.ए.पी. की सामान्य प्रक्रिया ही लागू होगी।
- 2.3. 1 अप्रैल, 2022 के बाद और प्रभाव में आने की तारीख, यानी 1 जनवरी, 2023 के पहले किए जाने वाले सभी ऑडिट ड्राफ्ट FPS 2.0.0. की कसौटी पर किए जाएंगे।

¹ "नई" शर्तों का मतलब उन मानदंडों से है, जो AHG 1.4.0 में मौजूद नहीं थे और वे मानदंड जिनमें संशोधन के बाद बड़ा बदलाव हुआ है। "नई" शर्तें FPS के पिछले संस्करण के आधार पर फेयर ट्रेड USA द्वारा निर्धारित की जाएंगी। कृपया [संशोधन वेबसाइट](#) पर उपलब्ध फैक्ट्री प्रोडक्शन स्टैंडर्ड 2.0.0 में हुए बदलावों के सारांश पर गौर करें।

3. फैक्ट्री प्रोडक्शन स्टैंडर्ड टाइमलाइन की एक संक्षिप्त झलक

